#### RateGain Travel Technologies Limited



August 24, 2024

To,

National Stock Exchange of India Limited
(NSE: RATEGAIN)

BSE Limited
(BSE: 543417)

Subject: Publication of information regarding 12th Annual General Meeting of the Company and e-voting

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of newspaper advertisement published on August 24, 2024 in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi), regarding e-voting information for 12<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company, in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and the Secretarial Standards of General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India.

The dispatch of Notice of 12th Annual General Meeting of the Company, including e-voting information, alongwith the Annual Report for FY 2023-24 through electronic mode was completed on August 23, 2024.

The copies of newspaper advertisements are also available on the Company's website at <a href="https://investors.rategain.com">https://investors.rategain.com</a>

Please take above information on record.

Yours faithfully,

For RateGain Travel Technologies Limited

(Thomas P. Joshua) Vice President - Legal & Company Secretary Memb. No.: F9839

Encl.: As above

Corporate Office: Club 125, Plot No. A - 3,4,5, Tower A, 4th Floor,

Sector-125, Noida - 201301, UP, India | Tel: +91 120 5057000

Registered Office: M-140, Greater Kailash, Part-II, New Delhi - 110048

CIN No.: L72900DL2012PLC244966

Website: www.RateGain.com

E-Mail: help@rategain.com



CIN: L74899DL1996PLC425162

Registered Office: A-45, First Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi - 110044 Tel: +91 (11) 4128 1100. Fax: +91 (11) 4128 1101

E-mail: compliance@cleducate.com, Website: www.cleducate.com

NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING OF CL EDUCATE LIMITED TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ("VC") / OTHER AUDIO VISUAL MEANS ("OAVM")

1. NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the Twenty-Eighth (28th) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of CL Educate Limited ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, September 17, 2024 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the Rules made thereunder read with the General Circular number 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") read together with earlier circulars issued by MCA in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular number SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") read together with the earlier circulars issued by SEBI in this regard (collectively referred to as "SEBI Circulars"), permitting the holding of AGM through VC/OAVM without physical presence of Members at common venue, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM which will be circulated for convening the AGM.

2.The Notice of the AGM along with the Annual Report 2023-24 will be sent by electronic mode to those shareholders whose names appear in the Company's Register of Members as at the closing hours of business on Friday, August 16, 2024 and whose email addresses are registered with the Company/ Depositories. Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses, mobile numbers and Bank details with their Depositories through their DPs. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their latest and updated email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent - KFin Technologies Limited ("Kfin" or "RTA") Telephone: 1800 309 4001, e-mail: einward.ris@kfintech.com, Website:https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileema

The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the websites of the Company at www.cleducate.com, BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and Kfin at https://evoting.kfintech.com/.

4.Members can cast their votes electronically on the businesses as set out in the Notice of AGM through remote e-voting/voting during AGM Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/ OAVM. The manner of voting remotely for shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for those shareholders who have not registered their email addresses will be provided in the Notice to the shareholders. The details will also be made available on the Company's website at www.cleducate.com.

Since no dividend is being declared for the Financial Year 2023-24 at the AGM, hence the mandate on the manner of receipt of dividend is not being sought from the Members.

6.The Notice of 28th AGM will be sent to the Members in accordance with the applicable laws on their registered e-mail addresses shortly.

For CL Educate Limited

Place: New Delhi Date: August 24, 2024

Gautam Puri Vice Chairman & Managing Director DIN: 00033548

#### RateGain® RATEGAIN TRAVEL TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72900DL2012PLC244966 Registered Office: M-140, Greater Kailash Part-II, New Delhi 110048 Corp. Office: Club 125, Plot No. 3,4,5, Tower A, 4th Floor, Sector-125, Noida- 201301, U.P.

Telephone: +91 120 5057 000; E-mail: companysecretary@rategain.com; Website: www.rategain.com

NOTICE OF 12th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION Notice is hereby given that the Twelth (12") Annual General Meeting ('AGM') of the

members of RateGain Travel Technologies Limited ('the Company') will be held on Monday, September 16, 2024, at 11:00 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') facility in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, ('the Act') and Rules made thereunder, as amended from time to time, read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 ('MCA Circulars') and the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') has via circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 ('SEBI Circulars') (MCA Circular and SEBI Circular collectively referred as 'Circulars') to transact the business as set out in the Notice of AGM.

In compliance with the above Circulars, the Notice of the AGM along with Annual Report 2023-24, have been sent through electronic mode to those members of the Company whose email address are registered with the Company/Depository Participant (DP)/Registrar and Share Transfer Agent (RTA), as the case may be. The aforesaid documents are also available on the Investors Section of the Company's website at www.rategain.com, Stock Exchange's website i.e. BSE Limited ('BSE') at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com and National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, read with the Secretarial Standard - 2 on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India, the members of the Company are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system of NSDL. Members may cast their votes during the remote e-voting period from place other than the venue of the meeting ('remote e-voting') or vote through e-voting system during the AGM ('e-voting'). The voting rights of members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, September 09, 2024 ('cut-off date').

The details of remote e-voting/e-voting are as under:

 The remote e-voting period commences on Thursday, September 12, 2024 at 9.00 a.m (IST) and ends on Sunday, September 15, 2024 at 5.00 p.m. (IST),

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Monday September 09, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request a evoting@nsdl.co.in or einward.ris@kfintech.com or companysecretary@rategain.com If a person is already registered with NSDL for remote e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote if you forgot your, password, you can reset your password by using 'Forgot User Details / Password' option available on www.evoting.nsdl.com. A member can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-voting system of NSDL.

Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after the notice is send through e-mail and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or to the Issuer/RTA. However, a member already registered with NSDL for e-voting, can use existing user ID and password for casting the votes. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password\* option available on www.evoting.nsdl.com

In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date may follow steps mentioned in the

Notice of the AGM. The members are also informed that:

voting or e-voting at the AGM.

Date: August 24, 2024

Place: New Delhi

 Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. (IST) on September 15, 2024. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once vote on a resolution is casted by a member, it cannot be changed, subsequently.

The members attending the AGM through VC/OAVM facility, who have not casted their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right at the AGM

A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Monday, September 09, 2024, shall be entitled to avail the facility of either remote e-

The procedure for remote e-voting/e-voting and attending the AGM through VC/OAVM is available in the Notice of AGM.

The manner of registration of e-mail addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the Notice

The Board of Directors have appointed Mr. Shreyansh Pratap Jain, Practicing Company Secretary (Membership No. F8621 & C.P. No. 9515) as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting/e-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries, relating to remote e-voting/e-voting and joining the AGM through VC/OAVM, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting usermanual for members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in

By the order of the Board of Directors For RateGain Travel Technologies Limited

> Thomas P. Joshua Company Secretary

e vedanta

Place: Mumbai

Date: August 24,2024



HINDUSTAN ZINC Zinc & Silver of India

#### HINDUSTAN ZINC LIMITED Regd Office: Yashadgarh, Yashad Bhawan, UDAIPUR-313 004 (Rajasthan)

Email: hzl.secretarial@vedanta.co.in website: www.hzlindia.com Tel: 91-294-6604000 CIN: L27204RJ1966PLC001208

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following share certificates of face value of Rs. 2/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST / MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof:

S.	Name of Shareholder	Folio No.	No. of Shares	Distinctive Nos.		Certificate
No.				From	То	No.
1	MR SAGAR BALWANTRAI	550550000000000000000000000000000000000	1000	2112244906	2112245905	1046
	SHAH	5001866	1000	4224904406	4224905405	2341
2	RENU RAI	R001441 -	2500	2112040691	2112043190	893
	KIRAN RAI		2500	4224700191	4224702690	2188

For Hindustan Zinc Limited Harsha Kedia Company Secretary and Compliance Officer

QUESS

QUESS CORP LIMITED CIN: L74140KA2007PLC043909

Registered & Corporate Office: 3/3/2, Bellandur Gate. Sarjapur Main Road, Bengaluru 560 103, Karnataka, India Website: www.quesscorp.com | Email: agm2024@quesscorp.com Tel: 080 6105 6000 | Fax: 080 6105 6406

#### INFORMATION REGARDING (A) 17TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION AND (B) RECORD DATE FOR DIVIDEND

Notice is hereby given that the 17th Annual General Meeting ("AGM") of Quess Corp Limited ("the Company") is scheduled to be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Monday, September 16, 2024 at 03:30 P.M. IST, without the physical presence of the shareholders at a common venue in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), read with all the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"), to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM. The attendance of the members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

In compliance with the relevant circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report 2023-24, is being sent only through electronic mode to the Shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depositories.

The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at https://www.quesscorp.com/investor-other-information/ and also on the website of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at https://www.evotingindia.com/.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 10, 2024 to September 16, 2024 (both days inclusive). Instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM:

The Company is providing to its Shareholders, the facility to exercise their right to vote on resolutions set forth in the Notice of the AGM, using electronic voting system platform (e-voting), provided by CDSL. The e-voting period commences on Thursday, September 12, 2024 (9:00 A.M. IST) and ends on Sunday, September 15, 2024 (5:00 P.M. IST). During this period, members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Monday, September 09, 2024 i.e. cut-off date, may cast their vote electronically. Further, the facility for e-voting at AGM shall also be made available during the AGM. The Shareholders who have not cast their votes through remote e-voting can cast their vote during the AGM through electronic mode.

The manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM by Shareholders holding shares in demat and physical mode including the process of joining the AGM is detailed in the Notice of the AGM.

Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if he/she is already registered with CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her existing user ID and password for casting the vote.

In terms of SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

## RECORD DATE FOR DIVIDEND AND PAYMENT THEREOF

 a) The Company has fixed Friday, September 06, 2024 as the "Record Date" for determining entitlement of members to dividend for the financial year ended March 31, 2024, and

 b) The dividend will be paid (subject to the deduction of tax at source, as applicable) on or after sixth days from the conclusion of the AGM through electronic mode. As mandated by SEBI, dividend to the members holding shares in physical mode shall be paid electronically, only after they have furnished their Permanent Account Number, Contact Details (Postal Address, Mobile Number and E-Mail), Bank Account Details, Specimen Signature, etc. for their corresponding physical folios. Manner of registering mandate for receiving Dividend:

Members are requested to register/update:

 a) their complete bank details with their Depository Participant(s), if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s);

 b) Permanent Account Number, Contact Details (Postal Address, Mobile Number and E-Mail), Bank Account Details, Specimen Signature, etc., with Link Intime India Private Limited by submitting duly filed and signed Form ISR-1 along with requisite supporting documents at its aforesaid address, if shares are held in physical mode.

As per Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of Shareholders w.e.f. April 1 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to Shareholders at the prescribed rates.

Further, according to the provisions of Section 206AB of the Income Tax Act, 1961 ('Act'), effective from July 1, 2021 higher rates of tax would be deducted in case of payment to 'specified persons' A specified person means a person who has not filed the income tax return for the previous year immediately prior to the financial year in which tax is required to be deducted, for which the time limit for filing the return of income under Section 139(1) of the Act has expired; and the aggregate of tax deducted at source ('TDS') and tax collected at source ('TCS') is ₹50,000 or more in that previous year. Specified persons who have not submitted their Permanent Account Number ('PAN') as well as not filed their return of income, tax shall be deducted at higher of the two rates prescribed under Sections 206AA and 206AB of the Act.

In case of individual Shareholders, who are mandatorily required to have their PAN-Aadhar linked and have not done so, their PAN would be considered as inoperative. Such inoperative PANs would be considered as invalid and higher TDS rate as per section 206AA of the Act would be applied. The company will rely on the reports downloaded from the reporting portal of the income tax department for checking validity of PANs/inoperative PANs/specified persons under section 206AB of the Act. A non-resident shareholder who does not have Permanent establishment in India is excluded from

the scope of the above provision(s). Any eligible shareholder, who wishes to avail the benefit of non-deduction of tax at source for dividend/s declared during the financial year is requested to upload the documents on https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html of the RTA on or

before Monday, September 02, 2024. Alternatively, physical documents may be sent to RTA at the following address: Link Intime India Private Limited C-101, 247 Park, L B S Marg,

Vikhroli (W), Mumbai – 400083, Maharashtra, India

Date: August 23, 2024

Place: Bengaluru

Resident Individual | Yearly declaration in Form No. 15G/15H For the Format of Form 15G/15H, please visit the link: shareholder with

PAN\* https://www.quesscorp.com/investor-other-information/ No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Non-resident shareholders:

ii. Tax Residency Certificate

iii. Form 10F iv. Any other document which may be required to avail the tax treaty benefits For the Format of Form 10F and self-declaration, please visit the link: https://www.quesscorp.com/investor-other-information/

\*Application of beneficial tax rate shall depend upon the completeness of the documents submitted by the Non-Resident shareholder and review to satisfaction of the Company.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800225533.

> Sd/-Kundan K Lal

For Quess Corp Limited

Company Secretary and Compliance Officer

# krsnad DIAGNOSTICS

## KRSNAA DIAGNOSTICS LIMITED

Corporate Identity Number: L74900PN2010PLC138068 Registered Office: S.No. 243/A, Hissa No. 6, CTS No. 4519, 4519/1, Near Chinchwad Station, Chinchwad, Pune - 411 019, Maharashtra Telephone (Board): +91 20 2740 2400

E-mail: investors@krsnaa.in Website: https://krsnaadiagnostics.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR THE 14TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE

Notice is hereby given that the 14" Annual General Meeting ("14" AGM") of Krsnaa Diagnostics Limited ("the Company") will be held on Saturday, September 21, 2024 at 02:15 P.M. (IST) through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with general circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 and applicable SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022, January 05, 2023 and October 07, 2023 (collectively "Applicable Circulars"), thereby dispensing with the requirement of physical attendance of the Members at a common venue. Members can join and participate in the 14" AGM through VC/OAVM facility only. The deemed venue for the 14" AGM shall be the Registered Office of the Company. Members participating through the VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 14" AGM along with the Annual Report for financial year 2023-24 including the financial

Registrar and Share Transfer Agent i.e. Kfin Technologies Limited, in accordance with the MCA Circular and the SEBI Circular. The Notice of the 14" AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.krsnaadiagnostics.com/investors and website of National Securities Depository Limited (NSDL) viz., www.evoting.nsdl.com and will also be available on websites of BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com Members holding shares in Physical form can send a request to the Registrar and Share Transfer Agents of the Company (RTA) at einward.ris@kfintech.com providing Folio No., Name of Shareholder, scanned copy of the share certificates (front and back), self attested PAN copy, self attested Aadhaar Card copy or alternatively sending Form ISR-1 available on website of Company i.e. www.krsnaadiagnostics.com/

statements for the year ended March 31, 2024 will be sent only by email to all those members, whose

email addresses are registered with their respective depository participants ("Depository") or the

investors. Members holding shares in demat form can update their email ID with their depository participant. Members who hold shares in physical mode and who already have valid e-mail addresses registered with the Company/the RTA need not take any further action in this regard. Members holding shares either in physical form or dematerialised form, as on the cut-off date i.e. Friday, September 13, 2024 may cast their vote electronically on the businesses as set out in the Notice of the

Members are hereby informed further that: The remote e-voting period will commence on Wednesday, September 18, 2024 at 9:00 A.M. (IST) and ends on Friday, September 20, 2024 at 5:00 P.M. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

ii. Any person, who becomes Member of the Company after dispatch of the Notice of 14" AGM and

holding shares as on the cut-off date i.e. Friday, September 13, 2024 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in, einward.ris@kfintech.com and investors@krsnaa.in. iii. The detailed procedure and instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM will be

provided in the Notice of the 14" AGM. iv. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules made

thereunder and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 14, 2024 to Saturday, September 21, 2024 (Both days inclusive).

The above information is being issued for the information and benefit of all Members of the Company and is in compliance with the MCA and SEBI Circulars.

By Order of the Board of Directors For Krsnaa Diagnostics Limited

Place: Pune Date: August 24, 2024

AGM through electronic voting system of NSDL.

Company Secretary and Compliance Officer

Sujoy Sudipta Bose

## AMBIKA COTTON MILLS LIMITED

Regd. Office: 9-A, Valluvar Street,



Sivanandha Colony, Coimbatore-641 012. CIN: L17115TZ1988PLC002269 Phone:0422-2491504, Fax:0422-2499623

website: www.acmills.in, email: ambika@acmills.in

#### NOTICE TO SHAREHOLDERS

Dear Member(s)

1. Notice is hereby given that the 36th Annual General Meeting ("AGM") of the company will be held on Friday, 27"September, 2024at 12.00Noon through Video Conference ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") facility without the physical presence of the Members at a common venue to transact the business as set out in the Notice which will be circulated for convening the AGM in compliance with the applicable provisions, if any of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") Circulars issued from time to time.

 The Notice of the 36<sup>th</sup> AGM and the Annual Report for the year ended 31<sup>th</sup> March 2024 will be sent only by e-mail to all those members, whose e-mail address is registered with the Company /RTA or with their respective Depository Participants ("DP"),in accordance with the MCA and SEBI Circular(s). Members can join and participate in the 36th AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

3. Notice of the 36th AGM and the Annual Report for the year ended 31th March 2024 will be made available on the website of the Company i.e., www.acmills.in and the website of Stock Exchanges in which the Company's equity shares are listed i.e., BSE Limited& National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com

mandate for receiving dividends directly through Electronic Clearing Service (ECS) may follow the below instructions:a. Shareholders holding shares in demat form are requested to register/ update

4. Shareholders who wish to register their email address and / or bank account

the details in their demat account, as per the process advised by their respective Depository Participant. b. Shareholders holding shares in physical form are requested to register/ update the details by filing the prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with the Registrar

and Share Transfer Agent of the Company Link Intime India Private Limited

at coimbatore@linkintime.co.in. Members may download the prescribed forms from the Company's website at www.acmills.in. 5. Members holding shares in physical format or who have not registered their e-mail address with the Company /RTA may cast their vote remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting or through e-voting system during the AGM. The manner of voting remotely for shareholders will be provided in the Notice to

the Shareholders. Considering the above, we urge the shareholders to update their e-mail ID & Bank account details with the company /RTA / Depository Participants to ensure receipt of the Annual Report, Dividend and other communications from the company. The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in compliance with the MCA and SEBI Circular(s).

## GENERAL COMMUNICATION ON TAX DEDUCTION AT SOURCE ON DIVIDEND

The Board of Directors of the Company at their meeting held on 09"August 2024 have recommended dividend of Rs. 35/- (350%) per equity share having a face value of Rs. 10/each for the Financial Year ended 31" March 2024. The said dividend will be payable post approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Company. Pursuant to the Finance Act, 2020, with effect from 1" April 2020, Dividend Distribution Tax has been abolished and dividend income is taxable in the hands of the shareholders. The shareholders are therefore requested to furnish the necessary documents / declarations to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) Link Intime India Private Limited through online by clicking on the following link https://liiplweb.linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html on or before Friday, 20"September, 2024, to enable the company to deduct TDS on Dividend payment. You may further write to the Company at ambika@acmills.in or to the RTA at coimbatore@linkintime.co.in for any further clarification / assistance.

For Ambika Cotton Mills Limited P.V.Chandran Chairman and Managing Director

(DIN: 00628479)

financialexp.epapr.in \_\_\_\_\_\_\_\_ Chandigarh

Place: Coimbatore

Date: 23.08.2024

#### जनसता

सीआईएनः L51100DL2012PLC235573 रजि. कार्यालयः बी—46, रिट्रीट अपार्टमेंट, 20, आई.पी.एक्सटेंशन,नई दिल्ली—110 092

बैठक (एजीएम) मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को सुबह 11:00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को पुरा करने के लिए आयोजित की जाएगी, जिसे एजीएम बुलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। अधिनियम के प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियमों और सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य परिपत्रों के अनुसार, कंपनियों को उनके सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना 30 सितंबर, 2024 तक वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") और इन पूर्वोक्त एमसीए परिपत्रों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है और सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में शामिल हो सकते हैं। बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय यानी बी-46, रिट्रीट अपार्टमेंट, 20, आई.पी. एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110092 माना जाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023—24 के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई-वोटिंग") प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा ("ई-वोटिंग") प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए

यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं। यदि आपने कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, तो कृपया वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता पंजीकृत करने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें:--

रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर एजेंट / कंपनी को admin@skylinerta.com; cs@stmpl.co.inij ईमेल द्वारा निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति भेजें:- ए.शेयरधारक का नाम, फोलियो नंबर और पूरा पता बताते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र; बी. शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे) और सी. पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व–सत्यापित प्रति।

बोर्ड के आदेश से

स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड

वेबसाइटः www.stmpl.co.in, ईमेलः cs@stmpl.co.in

बारहवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्दवारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की बारहवीं (12वीं) वार्षिक आम

द्वारा उन सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, सदस्य कृपया ध्यान दें कि एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट www.stmpl.co.in और स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगा। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की जाएगी।

गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपना ईमेल पता पंजीकृत करें

कृते स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड विदुर गुप्ता प्रबंध निदेशक

30 बजे से शाम 05.00 बजे तक 5 मिनट रु. 62,84,502/- (रुपये बासट

अंतिम तिथि 09.09..2024 – शाम 5 बजे तक ईएमडी राशि (भारतीय रुपये में):

निरीक्षण की तिथि: 05.09.2024 के बीच — रु. 628450/ — (रुपये छह

12:00 पूर्वीह से 02:00 अपराह आईएसटी

से शाम 05.00 बजे तक 5

मिनट के असीमित

जमा करने की अंतिम

तिथि 09.09..2024 - शाम

पूर्वाह से 02:00 अपराह

विस्तार के साथ

2) केवाईसी के साथ ईएमडी

3) निरीक्षण की तिथि: 05.09.

आईएसटी तक

1) ई-नीलामी तिथिः 10.09. आरक्षित मूल्य (भारतीय

2024 - सुबह 10.30 बजे रिपये में):

2024 के बीच — 12:00 छब्बीस रुपये)

के असीमित विस्तार के साथ

केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की दो मात्र)

लाख चौरासी हजार पांच सौ

₹. 81,11,258 / -

अड्रावन रुपये)

ईएमडी राशि

(भारतीय रुपये में):

(केवल आठ लाख

ग्यारह हजार एक सौ

5. 811126 / <del>-</del>

(केवल इकासी लाख

ग्यारह हजार दो सौ

🔃 परफेक्टपैक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ९१०, चिरंजीव टॉवर-43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 ई-मेल आईडी: complianceofficer@perfectpac.com, वेबसाइट: www.perfectpac.com सीआईएनः L72100DL1972PLC005971, फोन नंबरः 011-26441015-18

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों से आयोजित होने वाली 52वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना, रिकॉर्ड तिथि और लाभांश संबंधी सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू प्रावधानों के अनपालन में. ०५ मई. २०२० के सामान्य परिपत्र संख्या २०/२०२० के साथ समय—समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों के साथ पढ़ें, सबसे नया सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 ('एमसीए परिपत्र') है, इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि परफेक्टपैक लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की बावनवीं (52वीं) वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को दोपहर 02:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('वीसी / ओएवीएम') के माध्यम से, एजीएम में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, 52वीं एजीएम ('एजीएम नोटिस') बूलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसाय को पूरा करने के लिए आयोजित की

जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा

103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन के लिए गिना जाएगा। एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रसार:- एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई, 2020 और समय–समय पर जारी किए गए बाद के परिपत्रों के अनुपालन में, नवीनतम सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 07 अक्टूबर, 2023 है, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट (श्वार्षिक रिपोर्टश) के साथ एजीएम नोटिस किवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जाएगा, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (''आरटीए'') / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (''डीपी'') के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://perfectpaccom/annualreports-aspx, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

ई—वोटिंगरू— सदस्यों को एजीएम नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई—वोटिंग सुविधा (एजीएम से पहले) और ई—वोटिंग सुविधा (एजीएम में) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। रिमोट ई–वोटिंग और ई–वोटिंग सुविधा के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम नोटिस में प्रदान की जाएगी। एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है वे भी वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिन सदस्यों का ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, वे ईमेल आईडी के पंजीकरण, एजीएम में उपस्थिति और ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम नोटिस में उल्लिखित विस्तृत प्रक्रिया का संदर्भ ले सकते हैं।

लाभांश और रिकॉर्ड तिथि:- कंपनी के निदेशक मंडल ने 20 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 2 रुपये अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.00 रुपये (यानी 50प्रतिशत) का लाभांश देने की सिफारिश की है, जो एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। लाभांश, सदस्यों द्वारा अनुमोदन के बाद, कंपनी के इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों को रिकॉर्ड तिथि यानी 06 सितंबर, 2024 को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप में भुगतान/भेजा जाएगा, ताकि लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित की जा सके। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने लाभांश पात्रता का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट प्राप्त करने के लिए एजीएम नोटिस में दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने बैंक विवरण अपडेट करें।

लाभांश पर कर:- आयकर अधिनियम, 1961 ('आईटी अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार, लाभांश आय सदस्यों के हाथों में कर योग्य है और कंपनी को आईटी अधिनियम के तहत निर्धारित दर पर सदस्यों को दिए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करनी होती है। स्रोत पर कर की कटौती सदस्यों की आवासीय स्थिति, श्रेणी और आईटी अधिनियम के तहत प्रदान की गई शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे 09 सितंबर, 2024 को या उससे पहले complianceofficer@perfectpac.com पर ई–मेल के माध्यम से कर संबंधी दस्तावेज / घोषणाएँ भेजें ताकि कंपनी लागू होने वाली उचित कर कटौती दर निर्धारित कर सके। जो सदस्य अपना ईमेल आईडी और बैंक खाता पंजीकृत / अपडेट करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं:--

कंपनी के इक्विटी शेयर डीमैट फॉर्म में रखने वाले सदस्यों से अनरोध है कि वे अपने संबंधित डीपी से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

कंपनी के इक्विटी शेयर भौतिक रूप में रखने वाले सदस्य कंपनी के आरटीए, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ parveen@skylinerta-com पर निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 और अन्य प्रासंगिक फॉर्म में विवरण पंजीकृत/अपडेट कर सकते हैं। सदस्य कंपनी की वेबसाइट https://perfectpac.com/updationofkyc.aspx से निर्धारित फॉर्म डाउनलोड

परफेक्टपैक लिमिटेड के लिए स्थानः नई दिल्ली कंपनी सचिव दिनांकः 23.08.2024

O HDB

नंबर 07 आनंद कॉलोनी ।। सीतारामपरी आमेर रोड

13.07.2023 तक रु.3551248/- (शब्दों में रु. पैंतीस

ऋण खाता संख्या 20253367

## 12वीं वार्षिक सामान्य बैठक तथा ई—वोटिंग जानकारी की सचना एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलोजीज लिमिटेड ('दि कंपनी') के सदस्यों :

बोर्ड के आदेशानुसार

हीना सोनी

प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड के लिए

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 305, एलीट हाउस, 36, सामुदायिक केंद्र, कैलाश कॉलोनी एक्सटेंशन,

जमरूदपुर, नई दिल्ली 110048

टेलीफोनः 011-45537559 | वेबसाइटः www.premierpoly.com

CIN: L25209DL1992PLC049590 | ई-मेल: compliance.officer@premierpoly.com

बत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर की जानकारी

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि प्रीमियर पॉलीफिल्म लिमिटेड के सदस्यों की बत्तीसवीं वार्षिक आम बैठव

(एजीएम) सोमवार, 16 सितंबर, 2024 को अपराह्न 3.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडिये

कॉन्फ्रेंसिंग (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, ताकि 02 अगस्त, 2024 के नोटिस में निर्धारित

व्यवसायों का संचालन किया जा सके। एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में. वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए

एजीएम की सूचना और कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सदस्यों को भेज दी गई हैं,

जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और

https://premierpoly.com/product/32nd%20%20Annual%20Report%202023-

2024.pdf पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसः

www.bseindia.com, एनएसई www.nseindia.com और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। ईमेल वे

माध्यम से एजीएम की सूचना भेजने का काम 23 अगस्त, 2024 को पूरा हो गया है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम रं

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 13 सितंबर, 2024 को सुबह 9 बजे शुरू होगी और रविवार, 15 सितंबर, 2024

को शाम 5 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जो 09 सितंबर, 2024 की कट-ऑफ तारीख

तक भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, वे 02 अगस्त, 2024 की एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसाय

पर रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कट-

ऑफ तारीख यानी 09 सितंबर, 2024 के बाद नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी भेजने के बाद कंपनी का

सदस्य बन जाता है, वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना के पेज नंबर 16 से 20 पर दी गई प्रक्रिया का

पालन कर सकता है। एक बार सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डाल दिए जाने के बाद, सदस्य को बाद में उसमें

16 सितंबर, 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (ओएवीएम) के माध्यम र

एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य एनएसडीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई–वोटिंग) के माध्यम से एजीएम वे

नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से एजीएम के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं। हालांकि, केवल

सदस्य. जो वीसी सविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावें

पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, एजीएम में ई वोटिंग प्रणाली के माध्यम

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध

Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders तथा e-voting user manual for

Shareholders देख सकते हैं या 022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ

प्रबंधक, एनएसडीएल, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल,

बुक क्लोजरः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर

बुक्स मंगलवार, 10 सितंबर, 2024 से सोमवार, 16 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक वार्षिक आम बैठक

के उद्देश्य से और लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में घोषित किया गया हो, के भगतान के लिए पात्र शेयरधारकों

गैर-केवाईसी अनुपालन वाले फोलियो के मामले में लाभांशः शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि सेबी परिपत्र

दिनांक सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2024/37, 07 मई, 2024 ने अब अनिवार्य कर

दिया है कि भौतिक रूप में प्रतिभृतियों को रखने वाले प्रतिभृति धारक और जिनके फोलियो में केवाईसी विवरण जैसे

पैन, नामांकन का विकल्प, संपर्क विवरण, मोबाइल नंबर और बैंक खाता विवरण और हस्ताक्षर अद्यतन नहीं हैं, वे

RateGain®

रेटनेन ट्रैवल टेक्नोलोजीज लिमिटेड

(सीआईएन: L72900DL2012PLC244966)

पंजीकृत कार्यालय : एम-140, ग्रेटर कैलाश पार्ट-।।, नई दिल्ली-110048

निगमित कार्यालय : क्लब 125, भुखंड सं. ३, ४, ५, टॉवर ए, चतुर्थ तल, सेक्टर-125,

नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश

दूरभाष : 91 120 5057 000; ईमेल : companysecretary@rategain.com

वेबसाइट : www.rategain.com

बारहवीं (12वीं) वार्षिक सामान्य बैठक (''एजीएम'') का आयोजन सोमवार 16 सितंबर 2024 को मध्या.

11.00 बजे (भा.मा.स.) पर वीडियो कांफ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य दृश्य—श्रव्य माध्यमों ('ओएवीएम') सुविधा

के माध्यम से किया जाएगा। यह आयोजन, सामान्य परिपत्र संख्या 14 / 2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020.

परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांकित 5 मई 2020

तथा परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांकित 25 सितंबर 2023 ('एमसीए परिपत्रों') और भारतीय प्रतिभृति

सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी 1 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई 2020 औ

सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी-पीओडी-2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांकित 07 अक्टूबर

2023 ('सेबी परिपत्र') (एमसीए परिपत्र एवं सेबी परिपत्र सामृहिक रूप में ''परिपत्रों'' के रूप में संदर्भित)

के साथ पठित समय-समय पर संशोधितानुसार कंपनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों और

उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अनुपालन में, एजीएम की सूचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय का

उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, वार्षिक प्रतिवेदन 2023—24 के साथ एजीएम की सूचना केवल

इलेक्टॉनिक माध्यम से कंपनी के उन सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है जिनके ईमेल पते कंपनी

डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) / रजिस्ट्रार तथा अंश अंतरण अभिकर्ता (आरटीए), जैसा भी प्रकरण हो,

के साथ पंजीकृत हैं। उपर्युक्त प्रलेख, कंपनी की वेबसाइट www.rategain.com के इंवेस्टर्स सेक्शन

स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') की वेबसाइट www.bseindia.com

पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') की वेबसाइट www.nseindia.com

पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत सामान्य बैठकों पर साचिविक मानक-2 (एसएस-2) के साथ

पठित, समय–समय पर संशोधितानुसार सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं)

विनियमावली २०१५ के विनियम ४४, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली २०१४ के नियम २० तथा

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों को एनएसडीएल

प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। सदस्यगण, बैठक के स्थल के

अतिरिक्त किसी अन्य दूरस्थ स्थल से रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपने वोट ('रिमोट ई–वोटिंग'

डाल सकते हैं अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट ('ई-वोटिंग') डाल सकते

हैं। सदस्यों का मताधिकार, सोमवार 09 सितंबर 2024 (''कट-ऑफ तिथि'') के अनुसार कंपनी की प्रदत्त

1) रिमोट ई-वोटिंग अवधि का आरंभ बृहस्पतिवार 12 सितंबर 2024 को प्रातः 09.00 बजे (भा.मा.स.) पर होगा तथा समापन रविवार 15 सितंबर 2024 को सायं 05.00 बजे (भा.मा.स.) पर होगा।

2) कोई भी व्यक्ति, जो सूचना के प्रेषण के उपरांत कंपनी के अंश उपार्जित करता है तथा कंपनी का

एक सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार 09 सितंबर 2024 के अनुसार अंशों का

धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अथवा einward.ris@kfintech.com पर

अथवा companysecretary@rategain.com पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी एवं

पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि एक व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ

पहले से ही पंजीकृत है तो वोट डालने के लिए वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग

किया जा सकता है और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप www.evoting.nsdl.com

पर उपलब्ध 'फॉरगॉट यूजर डिटेल्स / पासवर्ड' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट

कर सकते हैं। एक सदस्य, एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए लॉगिन

कोई भी व्यक्ति जो भौतिक प्रारूप में अंशों का धारण किए हुए है और ऐसे अ-वैयक्तिक अंशधारव

जो ई-मेल के माध्यम से सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के अंश उपार्जित करते हैं और कंपनी

evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल को अथवा निर्गतनकर्ता / आरटीए को एक अनुरोध

भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, एक सदस्य जो ई-वोटिंग के

एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप

www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''फॉरगॉट यूजर डिटेल्स / पासवर्ड'' अथवा ''फिजिकल

यदि व्यक्तिगत अंशधारक, डिमेट प्रारूप में प्रतिभूतियों का धारण किए हुए हैं और जो सूचना के

प्रेषण के उपरांत कंपनी के अंशों का उपार्जन करते हैं और कंपनी के सदस्य बनते हैं और

कट-ऑफ तिथि के अनुसार अंश धारण किए हुए हैं, वे एजीएम की सूचना में वर्णित चरणों का

क) रिमोट ई-वोटिंग की 15 सितंबर 2024 को सायं 5.00 बजे (भा.मा.स.) के बाद अनुमित नई

ख) वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होनेवाले सदस्य जिन्होंने रिमोट

ग) एक सदस्य, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का प्रयोग करने वे

घ) एक व्यक्ति, जिसका नाम कट—ऑफ तिथि अर्थात सोमवार ०९ सितंबर २०२४ के अनुसार

ड.) रिमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग तथा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित

च) कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं करानेवाले सदस्यों के

6) निदेशक मंडल ने एक समूचित एवं पारदर्शी प्रविधि के अंतर्गत रिमोट ई–वोटिंग / ई–वोटिंग

रिमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग तथा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ने से संबंधित

किसी भी प्रश्न / पूछताछ की स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन पर

उपलब्ध सदस्यों के लिए तीव्रतापूर्वक पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) और ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल का

संदर्भ ले सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 022—4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी

प्रक्रिया की जांच-पड़ताल करने के लिए श्री श्रेयांश प्रताप जैन, व्यवसायरत कंपनी सचिव (सदस्यता

ई—मेल पतों के पंजीकरण की प्रविधि, एजीएमी की सूचना में उपलब्ध है।

सं. एफ8621 एवं सी.पी. नं. 9515) की जांचकर्ता के रूप में नियुक्ति की है।

ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम

बाद भी एजीएम में भागीदार कर सकता है, परंतु उसे एजीएम में पुनः वोट डालने की अनुमति

सदस्यों की पंजिका में अथवा डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों की पंजिका में

अभिलेखित है, तो वह रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने

दिया गया है तो सदस्य को इसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

होने की प्रक्रिया, एजीएम की सूचना में उपलब्ध है।

म्हात्रे को evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल इस अवधि और समय के बाद एनएसडीएल द्वार

निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यदि किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार वोट डाल

यूजर रिसेट पासवर्ड'' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं।

के सदस्य बनते हैं और कट-ऑफ तिथि के अनुसार अंशों का धारण किए हुए हैं,

समता अंश पूंजी के अंतर्गत उनके द्वारा धारित समता अंशों के अनुपात में होंगे।

आधारित ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) का उपयोग भी कर सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के विवरण निम्नानुसार हैं :

पालन कर सकते हैं।

का अधिकारी है।

दिनांक : 24 अगस्त 2024

स्थान : नई दिल्ली

) सदस्यों को यह भी सूचित किया जाता है कि :--

की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित समस्त संकल्पों

('सेबी') के

01 अप्रैल, 2024 से केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश के किसी भी भगतान के लिए पात्र होंगे।

मुंबई - 400 013 को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

www.premierpoly.com

बदलाव करने की अनमति नहीं होगी।

को निर्धारित करने के लिए बंद रहेंगी।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक: 23-08-2024

लेन-देन करने के लिए किया जाएगा।

www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

से वोट करने के पात्र होंगे।

वेबसाइट

वसूली अधिकरण कार्यालय-॥ ऋण वसूली अधिकरण, देहराद्न

आयकर अधिनियम, 1961 के द्वितीय अनुसूची के नियम 38 52 (2) के तहत बिक्री की घोषणा ऋण वसली और दिवालियापन अधिनियम 1993 के साथ पढे। दिनांक: 21.08.2024 शुद्धिपत्र

बनाम श्रीमती सीमा त्यागी एवं अन्य का शुद्धिपत्र टी.आर.सी.नं. 63/2018 सीडी नं. 1: श्रीमती सीमा त्यागी (ऋणी) पत्नी स्व. श्री विनय त्यागी, निवासी 32, प्लेसेन्ट वैली

सीडी नं. 2: श्री विनय त्यागी, पुत्र श्री रिव दत्त त्यागी (चुंकि मृतक का प्रतिनित्व कानुनी

सीडी नं.2/1: थी रजत त्यागी पुत्र स्व. थी विनय त्यागी, निवासी 32, प्लेसेन्ट वैली, राजपुर रोड,

सीडी मं.2/2: श्री अनुभव त्यांनी पुत्र स्व. श्री विनय त्यांनी, निवासी 32, फोसेन्ट वैली, राजपुर रोड,

सीडी नं.2/3: श्री साहिल त्यागी पुत्र स्व. श्री विनय त्यागी, निवासी 32, प्लेसेन्ट वैली, राजपुर रोड,

पीटासीन अधिकारी, ऋण वसुली अधिकरण लखनऊ द्वारा औ.ए. संख्या 199 / 2012 में जारी वसुल प्रमाण पत्र के संबंध में आप/आप सभी उनके द्वारा देय 66,85,258.00 (रू. क्रियासट लाख पिचार जार दौ सौ अठ्ठावन मात्र) की बकाया राशि और दिनांक 27.03.2012 से @12.00% प्रतिवर्ष की दर

मात्र) बकाया राशि और दिनांक 27.03.2012 से @12.00% प्रतिवर्ष की दर से भावी ब्याज तथा लाग

एततद्वारा सुचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश के आभाव में उक्त सम्पत्ति दिनांव 30.09.2024 को ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी तथा बोली मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेर की वेबसाइट https://drt.auctiontiger.net के माध्यम से "ऑनलाइन इलैक्ट्रोनिक बोली" के माध्यम

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-श्री संजीव गुप्ता, मुख्य प्रबंधक, उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक सार्ब, गाखन, दून विहार राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड (मोबाइल नंबर–7017936788)

खिलाफ अनुसूची में निर्दिष्ट है।

चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगें लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है, वह वोट डालने के लिए वर्तमान यूजर आईडी

नीलामी की दिनांफ:- 30.09.2024 ( दोपहर 12.00 बजे से 1.00 बजे तक)

 उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लोंट का खरीदार घोषित किया जाएगा, बशर्त वि उसके द्वारा बोली गई राशि आरक्षित मूल्य से कम न हो। जब प्रस्तावित मूल्य इतना स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होता है कि ऐसा करना अनुचित है, तो उच्चतम बोली को अस्वीकार/स्वीकार

माध्यम से सीचे खाता संख्या 7360878086 में जमा किए जाने चाहिए, खाता धारक का नाम वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण देहरादून जिसका आईएफसी कोड संख्या IDIB000D557 है य ासूली अधिकारी, डीआरटी देहरादून के पक्ष में डीडी के माध्यम से वसूली अधिकारी, डीआरट देहरादून के पास जमा किया जाना चाहिए और सम्पत्ति का विवरण पैन कार्ड, पते का प्रमाण और पहचान प्रमाण की प्रति के साथ देना होगा। ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर और कंपनी के मामले मे या कंपनी के प्रतिनिधित्व / वकील की पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज और जमा राशि की रसीद / कांचटर फाइल नीचे हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जमा की जानी चाहिए। ईएमडी और आवश्यक दस्तावेज जिसे ईएमडी की अन्तिम तिथि के बाद जमा किया गया है, ई-नीलामी में भागीदारी के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

 सफल बोलीदाता को अगली तिथि अर्थात् दिनांक 01.10.2024 को अपरान्ह 3.00 बजे तक ईएमडी के समायोजन के बाद बिक्री आय का 25% उपरोक्त पैरा 4 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उक्त खाते में जमा करना होगा। यदि अगला दिन अवकाश या रविवार है, तो अगले

 क्रेता को बिक्री आय का शेष 75% सम्पत्ति की बिक्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा, उस दिन को छोड़कर, यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाष है, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस को ऊपर पैरा 4 में बताए अनुसार निर्धारित तरीके से जमा करना होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त क्रेता को यसूली अधिकारी, डीआरटी, देहरादून के पास रूपये

अन्य सह-स्वामी के नाम के साथ, जहाँ सम्पत्ति चूककर्ता की है, और सह स्वामी के रूप में कोई अन्य व्यक्ति	किसी बाग पर निर्धारित राजस्य		दावं, यदि कोई हो, तवा इसकी प्रकृति और मूल्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण
2	3	4	5
वंचक आवासीय भूमि जिसका खसरा में.	शत नहीं	क्रत नहीं	वर्त जी
558 मिन स्थित मीजा ढाकपती 420.07 वर्गमीटर, 770 वर्गमीटर (साईड माप 56 फुट-6 ईच), पिरु 6 ईच), उत्तर- श्रीमती सीमा त्यार्ग सम्प्रतिन (साईड माप 80 फट- 0 ई	में से सीमाएँ। वम- श्रीमती सें ों के लिए 19 प	निष्न प्रकार है:- ोमा त्यागी की सम् फुट चीड़ा रास्ता,	पूर्व- 20 फीट चौड़ा सस्ता पत्ति (साईड माप 56 फुट- और बी बी. के. हाण्डा की

अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से 21.08.2024 से जारी। रिकवरी अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, देहरादून

: 12 फीट की गली, दक्षिण : सावित्री देवी का 12 फीट का प्लॉट और 2. मकान जिसकी माप 66.7 वर्ग गज है जो आयताकार है और किला नंबर 35//12/1 वाका रकबा मौजा बड़ौत तहसील गन्नौर और जनपद सोनीपत में स्थित है। सीमाएं :- पूर्व : 10 फीट की अजीत सिंह की संपत्ति, पश्चिम : विक्रेता का 10 फीट का प्लॉट, उत्तर : अशोक कुमार का 60 फीट का प्लॉट, दक्षिण : 60 फीट की गली। उधारकर्ता(ओं) को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि माँग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और वहां उन सूचनाओं में तथा यहां इसमें उपरोक्त तालिका में अंकित माँग राशि का, भुगतान की वसूली होने की तिथि तक गणनाकृत लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्कों, लागत और व्ययों के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर भुगतान करें। उधारकर्ता(गण) यह ध्यान में रखें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो है वह एक प्रतिभूत ऋणदाता है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा जो है

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

निगमित कार्यालय : 10वां तल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ

माँग सूचना तिथि तथा राशि

20 अगस्त. 2024

रु. 69,93,711.00 / – (रुपये उनहत्तर लाख तिरानबे हजार

सात सौ ग्यारह मात्र) 5 अगस्त 2024 के अनुसार

माँग सूचना तिथि तथा राशि

1) 13(2) माँग सूचना — 12 अगस्त 2024

शुद्धिपत्र सूचना – 17 अगस्त 2024

रु. 50,91,110/- (रुपये पचास लाख इक्यानबे हजार एक

सौ दस मात्र) 05 अगस्त 2024 के अनुसार

एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051

(पूर्ववर्त्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

मॉग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम")

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (पूर्ववर्त्ती फूलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी

लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियम

3 के साथ पिठत अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिनियम की

धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना(एं) निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को संबंधित

सूचना(ओं) में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने

को कहा गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता सकारण मानते हैं कि उधारकर्ता(गण) जो हैं वे माँग सूचना(नों) की

प्राप्ति कर भुगतान करने के दायित्वों से बच रहे हैं, अतः उन तक सूचना पहुंचाने के उददेश्य से सूचना

को नियमावली के अनुसार उनके ध्यानार्थ स्थान-स्थान पर चिपकाया जो रहा है और इसका प्रकाशन किया

भिम के समस्त वह भाग तथा अंश जो खसरा संख्या 46 / / 11 / 12 पर वहाँ उसके ऊपर

निर्मित अधि संरचना के साथ संपूर्ण भवन के सहित, ग्राम ऊंचा गांव, तहसील बल्लभगढ, जिला

फरीदाबाद में स्थित है। भिम की माप 1 कनाल 15 मरला है। सीमायें :- पूर्व : योगेश की

संपत्ति, पश्चिम : कष्णा की संपत्ति, उत्तर : सडक, दक्षिण : उपरोक्त संपत्ति का शेष भाग उसके

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति स्वामी का नाम : 1. शिव कुमार, 2. अशोक कुमार, दोनों पुत्र श्री परमानंद पुत्र श्री टीका राम,

संपत्ति विवरण : 1) मकान जिसकी माप 13.5 वर्ग गज है जो आयताकार है और किला नंबर

सीमाएँ :- पूर्व : 10 फीट की अजीत सिंह की दुकान, पश्चिम : विक्रेता का 10 फीट का प्लॉट, उत्तर

35 / /12 / 1 वाका रकबा मौजा बड़ौत तहसील गन्नौर और जनपद सोनीपत में स्थित है।

और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

जा रहा है। माँग सूचना(ओं) की विषयवस्तु के निष्कर्ष यहां इसमें नीचे दिये गये हैं

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

निवासी— ग्राम तेहा तहसील गन्नौर तथा जनपद सोनीपत,

उधारकर्ता (ओं) के नाम

बाद विजय की संपत्ति।

उधारकर्ता (ओं) के नाम

शुभ हार्डवेयर स्टोर

4. अशोक परमानंद त्यागी

. नवीन त्यागी

3. शिव कुमार

इंदु त्यागी

२ कमलेश

3. महेंद्र सिंह

1. श्री गिरधरगोपाल डेयरी फार्म्स

वह उधारकर्ता(ओं) द्वारा बंधक रखी गई प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के रूप में अचल संपत्ति / संपत्तियों के समक्ष एक प्रतिभूत इस प्रकरण में उधारकर्ता(गण) जो हैं वे चूंकि अनुबंधित समय के अंदर पूर्णरूपेण ढंग से अपने भुगतान दायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट प्रतिभृत परिसंपत्ति(यों) का अधिग्रहण करने के लिए अधिनियम

की धारा 13(4) के अंतर्गत उपलब्ध समस्त अधिकारों का प्रयोग करने की अधिकारी होगी. जिसमें विक्रय के माध्यम से परिसंपत्तियों o हस्तांतरण अथवा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपचार का उपयोग करना तथा भुगतान वसूल करना सम्मिलित होगा, परंतु यह इतने तक ही सीमित भी नहीं होगा। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो है वह विक्रय अथवा हस्तांतरण करने के लिए अधिकार का प्रवर्तन करने से पूर्व प्रतिभृत परिसंपत्ति(यों) की कुर्की तथा/अथवा सील करने के लिए भी सशक्त है। प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के विक्रय के उपरांत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के पास यह अधिकार भी है कि वह उस स्थिति में, शेष देयराशियों को वसूल करने के लिए पृथक विधिक कार्यवाहियां आरंभ कर सकती है, यदि सएमएफजी इंडिया क्रेडिट को भुगतानयोग्य देयराशियों का भुगतान पूर्ण करने के लिए बंधक संपत्तियों का मुद्रामूल्य अपर्याप्त होता है। यह उपाय एक अतिरिक्त उपाय है और किसी अन्य विधि–व्यवस्था के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को उपलब्ध उधारकर्ता(ओं) का ध्यान, प्रतिभत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकष्ट

किया जाता है तथा उस इसके अतिरिक्त उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा उधारकर्ता(ओं) को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभत परिसंपत्ति(यों) का निस्तारण करने अथवा उनका लेन–देन करने अथवा किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को बिक्री, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से) हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित/निषेधित किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न होने पर यह उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। माँग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(गण) मधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता. / – प्राधिकृत अधिकारी एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड दिनांक : 24-08-2024 पूर्ववर्त्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

हितीय तल, पारस टॉवर, हितीय तल, माजरा निरंजनपुर, सहारनपुर रोड, देहरादून, उताराखण्ड- 248171

टी,आर.सी.नं. 53 / 2018 दिनांक 13.08.2024 को समाचार पत्र जनसता में प्रकाशित उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक

राजपुर रोड, देहरादुन (उत्तराखण्ड)।

उत्तराधिकारियों सीडी सं. 2/1 से सीडी सं. 2/3 ) के माध्यम से किया जाता है।

से नावी व्याज तथा देय लागत (दिनांक 31.07.2024 तक कूल क्सूली योग्य बकाया राशि 2,22,29,872.

00) का भूगतान करने में विफल रहे हैं। और जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र की सन्तुष्टि में नीचे अनुसूची में उहिलखित सम्पत्ति की बिक्री का आदेश दिया गया है।

और जबकि इसके अन्तर्गत रू. 66,85,258.00 (रू. छियासठ लाख पिचासी हजार दो सी अठ्ठावर

बिक्री नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित ऊपर नामित प्रतिवादियों की सम्पत्ति की होगी तथा

उक्त सम्पत्ति से जुड़ी देंनदारियां और दावें जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे प्रत्येक लॉट के संलग्न अनुसूची में निर्देष्ट विवरण नीचे हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा में किसी भी त्रुटि ,गलत बयान या

ई-नीलामी का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित है:-

करना नीचे हस्ताक्षरकर्ता के विवेक पर होगा।

बोली की अंतिम तिथि:- दिनांक 26.09.2024 आरक्षित राशि स्त्यये- 2.50 करोड़ रूपये- 25.00 लाख रूपये- 10.00 लाख बोली की राशि में वृद्धि 10,00,000 / — रूपये होगी। बोली की राशि या बोली लगाने वाले व संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, लॉट को तुरन्त फिर से नीलामी में रख

जाएगा।सम्पत्ति को ऊपर सारणीबद्ध प्रारूप में उल्लिखित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा

4. **ईएमडी रू० 25,00,000 /— दिनांक 26.09.2024** तक ऑनलाइन आरटीजीएस / एनईएफटी के

कार्यदिवस पर जमा कराना होगा।

1,000 / – तक 2%की दर से पाउंडेज शुल्क और 1,000 / – रूपये की निर्धारित राशि से अधिक का 1% डीडी के माध्यम से रजिस्ट्रार डीआरटी देहरादून के पक्ष में जमा करना होगा।

निर्धारित अवधि के मीतर भुगतान में चूक होने की स्थिति में, बिक्री के खर्ची को चुकाने के बाद जमा राशि, यदि नीथे हस्ताक्षरकर्ता ठीक समझे, सरकार के द्वारा जब्द कर ली जाएगी, और यूक करने वाला क्रेता सम्पत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावो को जब्त कर लेगा, जिसकें लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। बिक्री की नई घोषणा जारी हाने के बाद सम्पत्ति को फिर से बेचा जाएगा।

लॉट बेबी जाने वाली सम्पत्ति का विवरण, सम्पत्ति वा उसके किसी अन्य भार | सम्पत्ति के संबंध में किए गये

जहाँ सम्पत्ति चूककर्ता की है, और सह स्वामी के रूप में कोई अन्य व्यक्ति	निर्धारित राजस्य	लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	प्रकृति और मून्य से संबंधित कोई अन्य ज्ञात विवरण
2	3	4	5
बंचक आवासीय भूमि जिसका खसरा मं.	क्षत नहीं	क्रत नहीं	वर्ग नहीं
558 मिन स्थित मीजा ढाकपती 420.07 वर्गमीटर, 770 वर्गमीटर (साईड माप 56 फुट-6 ईच), पिक 6 ईच), उत्तर- श्रीमती सीमा त्यार्ग सम्पत्ति (साईड माप 80 फुट- 0 ई	में से सीमाएँ। वम- श्रीमती सी वे के लिए 19 प्	नेम्न प्रकार है:- मा त्यागी की सम हुट चीड़ा रास्ता,	पूर्व- 20 फीट चौड़ा रास्ता पत्ति (साईड माप 56 फुट- और त्री वी. के. हाण्डा की

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

indianexpress.com

हस्ता./-

कंपनी सचिव

थॉमस पी. जोशुआ

कृते रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलोजीज लिमिटेड

www.readwhere.com

कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और अपने डीपी द्वारा बताई

दिनांकः 23 / 08 / 2024 **स्थानः** नोएडा सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ई-नीलामी बिक्री सूचना एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेन लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, दूसरी मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ई-145, रमेरा मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी-स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में हस्ताक्षरित ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस के अनुसार निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। निम्नलिखित ऋण खातों को कंपनी के बकाया की वसूली के लिए "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" बेचने का अधिकार है। संपत्ति का विवरण 1. ई-नीलामी की तिथि एवं समय 1. आरक्षित मूल्य

1. उधारकर्ता/ओ गारंटर/ओ का नाम और पता 2. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 2. संपत्ति के ई एमडी 2. कुल देय+ब्याज 3. संपत्ति निरीक्षण की तारीख और समय मनीषा ट्रेडर्स, दुकान नंबर 3 मनीषा ट्रेडर्स सूरजपोल, अनाज मंडी प्रितिमृतियों की अनुसूची । संपत्ति का पूरा टुकड़ा – प्लॉट नंबर 1 और 1) ई-नीलामी तिथिः 10.09.2024 - सुबह 10. रु.9285269 / - (रुपये बानबें सूरजपोल गेट जयपुर-302002 भी यहां हैरू प्लॉट नंबर 01, खसरा दकान नंबर 1. खसरा नंबर 80.83.84 और 86 भारती कॉलोनी शिवाजी 30 बजे से शाम 05.00 बजे तक 5 मिनट लाख पचासी हजार दो सौ नंबर 80 83 84 और 86. स्कीम भारती कॉलोनी शिवाजी नगर ब्रह्मपरी के असीमित विस्तार के साथ जयपुर-302001 पर स्थित है। मूलचंद बी प्लॉट नंबर 01 भरतिया श्री भुगड़ा मल के पक्ष में श्रीमती माया देवी द्वारा निष्पादित पंजीकृत बिक्री उनसट मात्र) 2) केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 09.09..2024 – शाम 5 बजे ईएमडी राशि (भारतीय रुपये में): विलेख, उक्त संपत्ति के संबंध में । साइट प्लान दस्तावेज संख्या 1057 कॉलोनी ब्रह्मपुरी, जयपुर-302001.-हेमंत बी प्लॉट नंबर 01 भरतिया रु.928527 / – (रुपये नौ लाख कॉलोनी ब्रह्मपुरी जयपुर-302001. वीरू मल धीरवानी पी नं 01 अड्डाईस हजार पांच सौ सत्ताईस 3) निरीक्षण की तिथिः 05.09.2024 के बीच 1979 को। संपत्ति की सीमाएं: उत्तर: मकान रामदलारी, दक्षिण: प्लॉट-2 और भरतिया कॉलोनी बी रहमपुरी, जयपुर—302001 प्रिया धीरवानी प्लॉट एस नं. २. पर्वः सडक. पश्चिमः सडक – 12:00 पूर्वाह्न से 02:00 अपराह्न नं 01 भरतिया कॉलोनी, ब्रह्मपुरी जयपुर—302001 लक्ष्मी बी पी नं 1 प्रतिभृतियों की अनुसूची || — संपत्ति का पूरा हिस्सा – प्लॉट नं. 1 और भरतिया कॉलोनी ब्रह्मपूरी, जयपूर-302001. सीमा बी प्लॉट नं 01 दुकान नं. 1, खसरा नं. 80,83,84 और 86 भारती कॉलोनी, शिवाजी नगर. भरतिया कॉलोनी ब्रह्मपुरी, जयपुर-302001 : ऋण खाता संख्याः अभामरी जयपुर राजस्थान 302001 में स्थित, क्षेत्रफल 26.66 वर्ग गज श्री 3047551 26—मार्च—21 तक रु. 5,646,219.24 (रुपये छप्पन लाख | शंकर लाल द्वारा श्री भुगड़ा मल के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख, **छियालीस हजार दो सौ उन्नीस और चौबीस पैसे मात्र)** तथा वास्तविक जिस संपत्ति के संबंध में ।।साइट प्लान दस्तावेज नं. 3052, बुक नं. –। प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत। खंड नं. 789 पृष्ठ नं. 207 से 208 पर 19.12.1984 और शूल्क आदि उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नामः 1. टी आर गोल्ड भीलवाड़ा सेवा सदन रोड सुचना केंद्र आरक्षित मूल्य (भारतीय रुपये में)ः ) ई—नीलामी तिथिः 10.09.2024 — सुबह 10. भीलवाड़ा एचओ -311001, यहां भी है: प्लॉट नंबर 46 विलेज सिंधू नगर भीलवाड़ा भीलवाड़ा 46, गांव- सिंधु नगर, भीलवाडा में स्थित है. रु.10018210 / –(एक करोड़ 30 बजे से शाम 05.00 बजे तक 5 मिनट एचओ—311001, 2. ईश्वर दास सोनी हेमू कालानी स्कूल सिंधु के पास नगर भीलवाड़ा भीलवाड़ा एचओ–311001 राजस्थान– 311001 संपत्ति का अठारह हजार दो सौ दस रुपये के असीमित विस्तार के साथ क्षेत्रफल 120 वर्ग गज है। संपत्ति की सीमाएं: उत्तरः एचओ—311001, 3. रवि कुमार सोनी हेमू कालानी स्कूल के पास सिंधु नगर भीलवाड़ा भीलवाड़ा केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम एचओ-311001, 4. राधा देवी सोनी हेमू कालानी स्कूल के पास सिंधु नगर भीलवाड़ा एचओ-311001, प्लॉट संख्या 45, दक्षिणः सड़क, पूर्वः हंडेलाल की ईएमडी राशि (भारतीय रुपये में)ः तिथि 09.09..2024 - शाम 5 बजे तक 5. रमेश सोनी हेमू कलानी स्कूल के पास सिंधु नगर भीलवाड़ा भीलवाड़ा हो—311001. भिम, पश्चिमः श्री और श्रीमित सिंहल की भिम प्लॉट रु.1001821 / – (दस लाख एक निरीक्षण की तिथिः 05.09.2024 के बीच संख्या ४६ का हिस्सा 1/3 हिस्सा। ऋण खाता संख्या 5148062 15 जून 2021 तक रु. 10,981,130.17 (एक करोड़ नौ लाख इकासी हजार अस्सी सौ इक्कीस रुपये 12:00 पूर्वाह्न से 02:00 अपराह हजार एक सौ तीस और सतरह पैसे मात्र) और भविष्य का संविदात्मक ब्याज वास्तविक प्राप्ति आईएसटी तक तक, आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि सहित। सीमा सक्सेना, अनुराग सक्सेना, सभी यहां भीः प्लॉट संपत्ति का पूरा टुकड़ा और पार्सल प्लॉट नंबर 07, आनंद कॉलोनी ।।, सीतारामपुरी, आमेर रोड, 1) ई-नीलामी तिथिः 10.09.2024 - सुबह 10. आरक्षित मूल्य (भारतीय रुपये में)ः

जयपुर, राजस्थान में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 165.00 वर्ग गज है, गिरवी संपत्ति पर्व रोड 30

है। पंजीकृत उपहार विलेख दिनांक 19.05.2014 श्रीमती मिथलेश सक्सेना पत्नी स्वर्गीय श्री सरदार

बिहारी सक्सेना द्वारा श्री अनराग सक्सेना पत्र स्वर्गीय श्री सरदार बिहारी सक्सेना के पक्ष में साइट

पश्चिम प्लॉट नंबर 15. उत्तर मजार और प्लॉट नंबर 07 का हिस्सा, दक्षिण प्लॉट नंबर 08

लान के साथ उक्त संपत्ति के उपहार के लिए निष्पादित किया गया और इसे उप-रजिस्ट्रार लाख इक्यावन हजार दो सौ अड़तालीस मात्र) और जयपुर – ।।। के कार्यालय में दिनांक 19/05/2014 को आर.एस. संख्या 2014053003670. बक वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज, साथ में नंबर ।, वॉल्यूम के रूप में पंजीकृत किया गया है। संख्या 505, पृष्ठ संख्या 55 पर, तथा अतिरिक्त आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदिय पुस्तक संख्या ५ खंड संख्या २०४३ के पृष्ठ संख्या ४८ से ५७ पर चिपका हुआ मेसर्स त्रिवेणी एंटरप्राइजेज, भैरव मार्ग सी–31 लक्ष्मीनारायणपुरी हिदा की मोरी वार्ड नंबर 56 जयपुर–302003 संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, जिसका प्लॉट नंबर सी–31 श्री राजस्थान में भी:- प्लॉट नंबर सी-31 श्री राम कॉलोनी व्यास मार्ग लक्ष्मी नारायण परी हिदा की मोरी राम कॉलोनी व्यास मार्ग लक्ष्मी नारायण परी हीदा की जयपुर-302002। - जय प्रकाश अग्रवाल 31 लक्ष्मीनारायण पुरी भैरव मार्ग हनुमान मंदिर के पास सूरजपोल गेट मोरी जयपुर (राजस्थान) में स्थित है, जिसका माप 171.67 रामगण बाजार जयपुर 302003 राजस्थान। विमल कुमार गुप्ता — सी—31 लक्ष्मीनारायण पुरी भैरव मार्ग हनुमान—मंदिर 🛮 एकड़ है (उक्त संपत्ति के 1/3 अविभाजित हिस्से के संबंध मंदिर सूरजपोल गेट के पास लक्ष्मीनारायण पुरी भैरव मार्ग जयपुर 302003 3 राजस्थान.— नरोत्तम लाल अग्रवाल,(अपनी कानुनी के माध्यम से) उत्तराधिकारी) – श्रीमती मंजु देवी पत्नी स्वर्गीय श्री नरोत्तम लाल अग्रवाल (कानूनी प्रतिनिधि) सी–31 लक्ष्मीनारायण पुरी भैरव मार्ग हनुमान के पास – मंदिर सूरजपोल गेट रामगण बाजार जयपुर 302003, – मनीष अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री नरोत्तम लॉल अग्रवाल (कानूनी प्रतिनिधि) – सी–31 लक्ष्मीनारायण पुरी भैरव मार्ग हनुमान—मंदिर सूरजपोल गेट के पास रामगण बाजार जयपुर 302003, – रोहित अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय . श्री नरोत्तम लाल अग्रवाल (कानूनी प्रतिनिधि) – सी–31 लक्ष्मीनारायण पुरी भैरव मार्ग हनुमान–मंदिर सूरजपोल के

सरजपोल गेट के पास रामगण बाजार जयपुर 302003 राजस्थान। मनीष अग्रवाल सी–31 लक्ष्मीनारायण पुरी भैरव में श्री बाबू लाल द्वारा श्री नोरोत्तम लाल अग्रवाल के पक्ष मार्ग हनमान मंदिर सरजपोल गेट के पास रामगण बाजार जयपूर 302003 राजस्थान— ज्योति एचरू सी—31 हनुमान में निष्पादित पंजीकृत विक्रय विलेख। दस्तावेज संख्या-3577. पस्तक संख्या-1. खंड संख्या-104 पष्ट संख्या–189 पर 16/12/1995।) (उक्त संपत्ति के 1/ प्रकाश अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित पंजीकत विक्रय विलेख। दस्तावेज संख्या—3576, पुस्तक संख्या—1, खंड पास गेट रामगण बाजार जयपुर 302003, – मनीष अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री नरोत्तम लाल अग्रवाल (कानुनी प्रतिनिधि) संपत्ति के 1/3 अविभाजित हिस्से के संबंध में, श्री बाब् — सी–31 लक्ष्मीनारायण पूरी भैरव मार्ग हनुमान—मंदिर सुरजपोल गेट के पास रामगण बाजार जयपूर 302003, -लाल द्वारा श्री विमल कुमार के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत रोहित अग्रवाल पुत्र स्वर्गीय श्री नरोत्तम लाल अग्रवाल ( कानूनी प्रतिनिधि) – सी–31 हनुमान–मंदिर सूरजपोल गेट विक्रय विलेख। दस्तावेज संख्या - 3575, पुस्तक संख्या -रामगण बाजार के पास लक्ष्मीनारायण पुरी भैरव मार्ग जयपुर 302003, – निशा अग्रवाल पत्नी श्री विजेंद्र अग्रवाल खंड संख्या 104 पृष्ठ संख्या -187 पर दिनांक (कानुनी प्रतिनिधि) – सी–31 हनुमान–मंदिर सुरजपोल गेट रामगण बाजार के पास लक्ष्मीनारायण पूरी भैरव मार्ग 16 / 12 / 1995) संपत्ति की सीमा इस प्रकार है:- उत्तर -जयपुर 302003 विमल कुमार गुप्ता — 147 स्ट्रीट नंबर —3 ऋषि गालव, नगर गलता गेट जयपुर — 302003 रास्ता, पूर्व – पी. नं. सी–30, दक्षिण – रास्ता 15' चौडा राजस्थान, — जय प्रकाश अग्रवाल — प्लॉट नंबर —52 महादेव नगर निवारू रोड झोटवाड़ा जयपुर — 302012 राजस्थानः ऋण खाता संख्याः 14953282/990875151 2.28 जुलाई 2023 तक रु. 63,58,543.61/— (शब्दों में रु.

तिरसठ लाख अनठावन हजार पाँच सौ तैंतालीस और इकसठ पैसा मात्र) तथा वास्तविक प्राप्ति तक भावी संविदागत ब्याज, साथ में आकरिमक व्यय, लागत और शल्क आदि। ा. बाबा एंटरप्राइजेज वार्ड नंबर 20, द्वारका कॉलोनी रामगंज मंडी रामगंज मंडी—326519 राजस्थान, और संपत्ति का वह पूरा हिस्सा प्लॉट संख्याः —39, 1) ई—नीलामी तिथिः 10.09.2024 — सुबह आरक्षित मूल्य (भारतीय रुपये में)ः इसके अलावारू प्लॉट नंबर 39 कसरा नंबर 73-74-76 ग्राम गोरधनपुरा थाने- रामगंजमंडी रामगंज खसरा संख्या 73,74,76, ग्राम-गोरधनपुरा मंडी—326519, 2. लीला दो जगन वार डी नहीं .20, द्वारका कॉलोनी रामगंज मंडी रामगंज मंडी—326519 माता जी रोड, तहसील रामगंजमंडी, जिला राजस्थान, 3.देवी लाल वर्मा वार्ड नंबर 20, द्वारका कॉलोनी रामगंज मंडी रामगंज मंडी—326519 राजस्थान कोटा राजस्थान—326519 पर स्थित है ऋण खाता नंबर 12108250 2. 2237541 रु. (रुपये बाईस लाख सैंतीस हजार पांच सौ इकतालीस संपत्ति का क्षेत्रफल 1050 वर्ग फीट है। संपत्ति मात्र) 04.06.2022 तक और वास्तविक वसली तक भावी संविदागत ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत की सीमाएं उत्तर: प्लॉट संख्या 38, दक्षिण: 3) निरीक्षण की तिथि: 05.09.2024 के बीच — और शुल्क आदि।

मिनट के असीमित विस्तार के साथ

रु २४०४१७ /— (चार लाख चालीस 12:00 पूर्वाह से 02:00 अपराह हजार चार सौ सत्रह रुपये मात्र) सडक, पूर्वः सडक, पश्चिमः प्लॉट संख्या ३६। बाधाओं और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाना होगा और सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करना होगा। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पत लगाया जाना चाहिए और सफल बोली लगाने वालों / संभावित क्रेता द्वारा भगतान किया जाना चाहिए। बोली लगाने वालों / संभावित क्रेताओं से अनरोध है कि वे बोली जमा करने से पहले. अपने हित में, उपरोक्त और उपर्यक्त संपत्ति / संपत्तियों से संबंधित अन्य प्रासंगिक विवरणों के संबंध में खुद को संतुष्ट कर लें। **ऑनलाइन निविदा/नीलामी के नियम एवं शर्ते** (1)नीलामी बिक्री 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ उपरोक्त तालिका में उल्लिखित तारीखों पर वेबसाइट

प्राप्त करना आवश्यक है। i) एनईएफटी / आरटीजीएस चालान या डिमांड ड्राफ्ट की प्रतिय पप) पैन कार्ड की प्रतिय पपप) पहचान का प्रमाण / पता प्रमाण (केवाईसी) अर्थात मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट आदि की स्व-सत्यापित प्रतिय जिसके बिना बोली खारिज हो जाएगी। अनुलग्नक-II और III की स्कैन की गई प्रति (वेब पोर्टलः https://www.bankeauctions.com/ से डाउनलोड की जा सकती है) विधिवत भरने और हस्ताक्षर करने के बाद अपलोड करना भी आवश्यक है। इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली दस्तावेज जमा करने, ऑनलाइन इंटर—से–बोली आदि पर प्रशिक्षण ⁄ प्रदर्शन में सहायता की आवश्यकता है. वे मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर—44, गुड़गांव— 122003, हरियाणा, ई—मेल आईडीः विनोद चौहान / delhi@c1india.com 9813887931 से संपर्क कर सकते हैं और किसी भी संपत्ति संबंधी प्रश्न के लिए अधिकृत अधिकारीः श्री विकास आनंद, मोबाइल नंबरः 9711010384, ई—मेल आईडीः <u>vikas.anand@hdbfs.com,</u> और श्री विशाल रितपुरकर से मोबाइल नंबरः 9833671006, ई—मेल आईडीः vishal.ritpurkar@hdbfs.com सोमवार से शनिवार तक कार्य समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं, (3) इच्छुक क्रेता / बोलीदाता को "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड"के पक्ष में पीएआर / चढीगढ़ पर देय किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर निकाले गए डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करनी होगी।या "एचडीबीएफएस जनरल कॉलन्स" के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएसय खाता संख्या 00210310002748; आईएफएससी dksM&HDFC0000021; एमआईसीआर कोडः MICR500240002; शाखाः लकड़ीकापुल, हैदराबादय ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर या उससे पहले (कृपया उपरोक्त तालिका में उल्लिखित विवरण देखें) और अपना नाम https://www.bankeauctions.com/ पर पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशूल्क प्राप्त करें और ई–नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। सेवा प्रदाता से. वेब–साइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करनी होंगी {1. एनईएफटी/आरटीजीएस चालान/डीडी कॉपी/पे ऑर्डर की प्रतिय 2. पैन कार्ड की प्रतिलिपि और 3. पते के प्रमाण की प्रतिलिपि (पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, पंजीकृत अवकाश लाइसेंस अनुबंध)} वेबसाइट पर पहले या द्वारा ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में बताया गया है और उसकी हार्डकॉपी भी ऊपर उल्लिखित शाखा में जमा करनी होगी। (4) बोली के साथ ईएमडी (आरक्षित मूल्य के 10: के बराबर) के साथ डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर के माध्यम से "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में सममूल्य / जयपुर पर देय या "एचडीबीएफएस जनरल कॉलन्स" खाता संख्या 00210310002748; आईएफएससी कोड-HDFC0000021; एमआईसीआर कोड MICR500240002; शाखाः लकड़ीकापुल, हैदराबाद ऊपर उल्लिखिततिथि और समय पर या उससे पहले के साथ संलग्न होना चाहिए। (5) जो बोलियां भरी नहीं जाएंगी या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त बोलियां अमान्य बोली मानी जाएंगी और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एक बार बोलीदाता द्वारा बोली जमा करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। यदि बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना किसी अतिरिक्त उपाय के जब्त कर ली जाएगी। हालाँकि, असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। (६)प्रस्तुत की जाने वाली बोली मूल्य वृद्धि मूल्य के साथ आरक्षित मूल्य से ऊपर होगी तथा 10,000 / – (केवल दस हजार रुपये) और बोली लगाने वाले को रुपये के गुणक में अपनी पेशकश में और सुधार करना होगा। 10,000 / – (रुपए दस हजार मात्र)। संपत्ति प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। (7) सफल बोली लगाने वाले को बिक्री मूल्य का 25: (ईएमडी सहित) तुरंत लेकिन अगले कार्य दिवस से पहले "एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में पीएआर / जयपुर या एनईएफटी 🖊 आरटीजीएस पर देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा। एचडीबीएफएस जनरल कॉलन्स के खाता संख्या 00210310002748य आईएफएससी कोड-HDFC0000021; एमआईसीआर कोड: MICR500240002; शाखाः लकडीकापूल हैदराबाद और बिक्री मूल्य की शेष राशि का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा कंपनी द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई ईएमडी और बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज

https://www.bankeauctions.com/ के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" बोली लगाई जाएगी। (2) इच्छक बोलीदाता अपना ईएमडी वेब पोर्टल: https://www.bankeauctions.com/ के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" बोली लगाई जाएगी। (2) इच्छक बोलीदाता अपना ईएमडी वेब पोर्टल: https://www.bankeauctions.com/

आईडी और पासवर्ड https://www.bankeauctions.com/पर नाम पंजीकृत करके निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है) लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। ईएमडी ऊपर उल्लिखित खाते में एनईएफटी के माध्यम से देय

होगा। वेब पोर्टल में बोलीदाता द्वारा पंजीकरण (वन टाइम) के बाद, इच्छूक बोलीदाता 🖊 क्रेता को बोली दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि और समय से पहले वेब पोर्टल में अपलोड किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतिया

नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या कोई डिफॉल्ट करता है, तो ईएमडी की जमा राशि या बिक्री मूल्य का 10:, जो भी मामला हो, कंपनी द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। (8) बिक्री की शर्तों के अनुपालन पर, प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली लगाने वाले के पक्ष में "बिक्री प्रमाणपत्र" जारी करेगा। स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, परिवहन, टीडीएस आदि से संबंधित सभी खर्च क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। (9) कंपनी प्रस्तावित संपत्ति या किसी अन्य बकाया यानी बकाया पानी / बिजली बकाया, संपत्ति कर या अन्य शुल्क, यदि कोई हो, के संबंध में किसी भी प्राधिकारी से या लागू किसी अन्य कानून के तहत अनुमति / एनओसी प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। (10) सफल बोलीदाता को नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकरण / एजेंसी को किसी भी विकास प्राधिकरण के लंबित बकाया, यदि कोई हो, कर / उपयोगिता बिल आदि और पंजीकरण के लिए स्टांप शुल्क / पंजीकरण शुल्क आदि के लिए देय शुल्क सहित सभी खर्च वहन करना होगा। विक्रय प्रमाणपत्र के पंजीकरण के लिए। (11) प्राधिकृत अधिकारी किसी भी या सभी प्रस्तावों / बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए बिक्री को स्थगित / रद्द करने या बिना किसी पूर्व सूचना के बिक्री की किसी भी शर्त को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेक सुरक्षित रखता है। अचल संपत्ति सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेची जाएगी। हालाँकि, यदि आवश्यक समझा जाए तो प्राधिकृत अधिकारी के पास परस्पर बोली लगाने की अनुमति देने का पूर्ण विवेक सुरक्षित है। (12) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, कंपनी को कंपनी के अलावा बेची जाने वाली संपत्ति पर किसी भी तरह की देनदारी के बारे में जानकारी नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी संतुष्टि के अनुसार संपत्ति का अपना मूल्यांकन करना चाहिए। कंपनी किसी भी तरह से उपरोक्त संपत्ति की फिटनेस / शीर्षक के संबंध में कोई गारंटी नहीं देती है या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करती है। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त संपत्ति के संबंध में सरकार या किसी को भी किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, संपत्ति कर या किसी अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं टहराया जाएगा। (13) नोटिस में बकाया राशि और आकस्मिक खर्चों, लागतों आदि पर ऋण दस्तावेजों के अनुसार लागू होने पर आगे ब्याज लिया जाएगा और इसकी वास्तविक वसूली तक देय होगा। (14)इसके द्वारा ऋणी/बंधककर्ता को बिक्री के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए नोटिस दिया जाता है और वे ऊपर वर्णित अनुसार अचल संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक क्रेता/क्रेता को बिक्री के नियमों और शर्तों के विवरण के अनुसार ला सकते हैं। (15) वेबसाइट पर प्रस्ताव / निविदा दस्तावेज के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके नीलामी प्रक्रिया में ऑनलाइन ई—नीलामी में भाग लेना अनिवार्य है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियां जमा करने और ई–नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/ पर जाएं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऑनलाइन

बोली संगठन की वेबसाइट पर होगी, और निविदा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों के अधीन होगी। नीलामी के लिए निविदा दस्तावेज और विस्तृत नियम और शर्तें वेबसाइट https://www.bankeauctions.com/ से डाउनलोड की जा सकती हैं या इसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन जमा किए गए संलग्नक के साथ बोली फॉर्म की एक प्रति (यूटीआर नंबर का भी उल्लेख करते हुए) श्री विकास आनंद मो.9711010384एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में, पताई—145, रमेश मार्ग, सरदार पटेल मार्ग के सामने, सी—स्कीम, जयपुर राजस्थान 302001 ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर या उससे पहले। (कृपया उपरोक्त तालिका में उल्लिखित विवरण देखें) को सौंपी जाएगी। (16) संपत्ति "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" के आधार पर बेची जाएगी और इच्छुक बोली लगाने वाले को कंपनी के अलावा किसी भी प्राधिकरण की संपत्ति पर भार, शूल्क और वैधानिक बकाया के संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ करनी चाहिए। शूल्क और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के शीर्षक, सीमा, गूणवत्ता और मात्रा के बारे में खुद को संतुष्ट कर लेना होगा। बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति, संपत्ति पर शुल्क और भार या किसी अन्य मामले आदि के संबंध में किसी भी प्रकृति का कोई भी दावा ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद और उसके बाद किसी भी चरण में विचार नहीं किया जाएगा।कंपनी क्षति या बेदखली की कार्यवाही आदि सहित किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। इच्छुक बोली लगाने वाले को इस संबंध में किरायेदारों के साथ—साथ कंपनी को भी क्षतिपूर्ति करनी होगी। क्रेता किरायेदार को बेदखल करने / किरायेदार के निपटान

के लिए केवल कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। कंपनी कैविएट एम्प्टर के सिद्धांत को सेवा में लाती है। (17) यह प्रकाशन सुरक्षा ब्याज के नियम 6(2), 8(6) और नियम 9 के अनुसार उपरोक्त ऋण खाते के उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटरों के लिए '15' (पंद्रह) दिनों का नोटिस दी जाती 🖁 । प्रवर्तन नियम 2002 के अनुसार, दायित्व का पूरा निर्वहन करें और इस नोटिस की तारीख से '15' (पंद्रह) दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति ऊपर उल्लिखित नियम और शर्तेंके साथ वेची जाएगी।यदि अंग्रेजी और वर्नाक्युलर अखबार में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति है,

तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी अखबार स्थानीय अखबार का स्थान ले लेगा और इसे अंतिम प्रति माना जाएगा, जिससे अस्पष्टता दूर हो जाएगी। यदि उधारकर्ता /बंधककर्ता बिक्री की तारीख से पहले कंपनी को देय राशि का पूरा भुगतान कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी। अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए, प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड श्री विकास आनंदः 09711010384 स्थानः जयपुर दिनांकः 23/08/2024 प्राधिकृत अधिकारी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

I arrive at a conclusion not an assumption. Inform your opinion with detailed analysis.

The Indian Express. ♦ The Indian EXPRESS For the Indian Intelligent.